



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 50) पटना, सोमवार, 18 जनवरी 2016

सं0 वि0(27) पे0 को0(मु0)-04/2015—50/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

15 जनवरी 2016

विषय:—दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 23.09.2009 तक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को 20 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में ।

चूँकि षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0-38/37/08 P & PW(A) दिनांक 02.09.2008 द्वारा अपने सेवी वर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित किया गया है । इसके अनुसरण में गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं0-819 दिनांक 23.09.2009 द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

और, चूँकि उक्त वित्त विभागीय संकल्प के कुछ प्रावधान 01.04.2007 से प्रभावी किये गये हैं तो कुछ निर्गत की तिथि से । 20 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान संकल्प निर्गत की तिथि से लागू किया गया था । पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देय उपदान 10.00 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत देने का प्रावधान दिनांक 01.04.2007 से लागू है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं0-176/13 रक्षा राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य समरूपवादों में दिनांक 15.05.14 को पारित आदेश में यह Opinion दिया गया है कि 20 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का लाभ 01.04.2007 से 23.09.2009 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों को दिया जाए।

इस लिए अब राज्य सरकार सम्यक विचारोपरान्त एतद् द्वारा उक्त संकल्प संख्या-819 दिनांक 23.09.2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. उक्त संकल्प की कंडिका-2(ii) (अ) एवं 2(ii) (अ) के खण्ड-(घ) में प्रयुक्त शब्द “आदेश निर्गत की तिथि” शब्द एवं अंक “दिनांक 01.04.2007” द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-2(ii) (ब) के खण्ड-(क) का प्रावधान निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(क) जो सरकारी सेवक 01.04.2007 को या उसके बाद 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वीकृत किया जायेगा, किन्तु 31.3.2007 तक जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 50-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>